



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032025-261519
CG-DL-E-10032025-261519

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2025/फाल्गुन 16, 1946

No. 132]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2025/PHALGUNA 16, 1946

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2025

सा.का.नि. 167(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (समूह क पद) भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या उसका लोप किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा उससे संलग्न और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वैज्ञानिकों (वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- इन नियमों का संक्षिप्त नाम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, समूह 'क' वैज्ञानिक/तकनीकी पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "कांडर नियंत्रण प्राधिकारी" से सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत हैं;

(ग) 'स्कीम' से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/41/2013-पीपी (आरआर) के अधीन जारी की गई समय-समय पर यथा संशोधित "संशोधित लचीली पूरक स्कीम (आरएफसीएस)" अभिप्रेत है;

(घ) "वैज्ञानिक पद" से स्कीम में यथा परिभाषित पद अभिप्रेत है;

(ङ) "वैज्ञानिक" से उक्त स्कीम में यथा निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है।

3. पदनाम, स्वीकृत पद, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-

पदनाम, पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर निम्नलिखित सारणी में यथा निर्दिष्ट होगा, अर्थात:-

सारणी-1

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1	वैज्ञानिक 'जी'	09	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क'	स्तर 14
2	वैज्ञानिक 'एफ'	09	राजपत्रित (अननुसचिविय)	स्तर 13क
3	वैज्ञानिक 'ई'	31		स्तर 13
4	वैज्ञानिक 'डी'	83		स्तर 12
5	वैज्ञानिक 'सी'	99		स्तर 11
	कुल	231		

4. संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों की सूची तथा स्वीकृत पदों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(क) संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों की सूची:-

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (मुख्यालय) {एमओईएस(एचक्यू)}
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)
- राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ)
- समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केन्द्र (सीएमएलआरई)
- राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (एनसीसीआर)
- राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र (एनसीएस)

(ख) स्वीकृत पद संख्या का विवरण निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट होगा, अर्थात:-

सारणी-2

क्रम सं.	पद का नाम	एमओईएस (एचक्यू)	आईएमडी	एनसीएमआर डब्ल्यूएफ	सीएमएल आरई	एनसीसीआर	एनसीएस	कुल
1.	वैज्ञानिक 'जी'	03	05	01	00	00	00	09
2.	वैज्ञानिक 'एफ'	09	00	00	00	00	00	09
3.	वैज्ञानिक 'ई'	09	21	00	01	00	00	31
4.	वैज्ञानिक 'डी'	16	44	11	05	07	00	83
5.	वैज्ञानिक 'सी'	21	37	20	11	10	00	99

6.	कुल	58	107	32	17	17	00	231
----	-----	----	-----	----	----	----	----	-----

5. भर्ती की पद्धति:-

(1) प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियां सबसे पहले फीडर श्रेणी के उन वैज्ञानिकों से भरी जाएंगी, जिनकी स्कीम के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए सिफारिश की गई है। यदि स्कीम के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए सिफारिश किए गए वैज्ञानिकों की संख्या प्रोन्नति श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है, तो उस सीमा तक पदों की संख्या स्वचालित रूप से प्रोन्नति श्रेणी में इस शर्त के अधीन उन्नयन हो जाएगी कि सभी श्रेणियों की संयुक्त स्वीकृत संख्या समान रहेगी।

(2) कटौती के कारण उत्पन्न रिक्तियां सामान्यतः संबंधित वैज्ञानिक या तकनीकी श्रेणी के प्रवेश स्तर श्रेणी में वापस आ जाएंगी।

(3) कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, इनमें से अधिकतम 10% रिक्तियों को, प्रवेश स्तर से ऊपर के पदों के लिए, रिक्ति के स्तर के आधार पर तथा समग्र स्वीकृत पद संख्या के भीतर व्यक्तिगत अभियर्थियों की उच्चतर अर्हताओं और कौशलों के अनुरूप, इन नियमों में प्रदत्त भर्ती पद्धति द्वारा भरा जा सकेगा।

6. (1) प्रोन्नति या उन्नयन:

- वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी तक प्रोन्नति या उन्नयन स्कीम में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।
- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में वैज्ञानिक 'बी' को वैज्ञानिक 'सी' के पद पर प्रोन्नति या उन्नयन के लिए मूल्यांकित किया जाएगा।
- इन पदों को सीधी भर्ती या प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति (उसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन के माध्यम से भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के अधिकार क्षेत्र से छूट होगी;
- वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' श्रेणी तक प्रोन्नति या उन्नयन निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट पद पर न्यूनतम कार्य अवधि के अनुसार और स्कीम में विनिर्दिष्ट अन्य उपबंधों के अनुपालन में होगा:

सारणी-3

क्रम सं.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पद का नाम	कार्य निष्पादन से संबंधित पद पर कार्य करने की न्यूनतम अवधि
1.	वेतन स्तर 10	वैज्ञानिक 'बी'	-----
2.	वेतन स्तर 11	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक-‘बी’ के रूप में 3 वर्ष
3.	वेतन स्तर 12	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक-‘सी’ के रूप में 4 वर्ष
4.	वेतन स्तर 13	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक-‘डी’ के रूप में 4 वर्ष
5.	वेतन स्तर 13क	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक-‘ई’ के रूप में 5 वर्ष
6.	वेतन स्तर 14	वैज्ञानिक 'जी'	वैज्ञानिक-‘एफ’ के रूप में 5 वर्ष

- वैज्ञानिकों को स्कीम के उपाबंध-III और उपाबंध-IV में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक कार्य रिपोर्ट और वार्षिक निष्पादन अंकन रिपोर्ट आवश्यक रूप से वार्षिक आधार पर भरनी होगी;

- (vi) स्कीम में दिए गए मूल्यांकन के दो स्तर होंगे, अर्थात् स्तर -1 छानबीन (आंतरिक छानबीन समिति) और स्तर -2 छानबीन (मूल्यांकन बोर्ड या विभागीय सहकर्मि समीक्षा समिति) जैसा कि अनुसूची-1 में उपबंध किया गया है;
- (vii) प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन वर्ष में दो बार किया जाएगा:

परंतु कि, उन वैज्ञानिकों, जिन्होंने मूल्यांकन की अंतिम तारीख अर्थात् 1 जनवरी या 1 जुलाई, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पद पर कार्य करने की न्यूनतम अवधि पूरी कर ली है या पूरी कर लेंगे, तथा जिन्होंने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या वार्षिक कार्य निष्पादन अंकन रिपोर्ट की संख्या, मूल्यांकन की अंतिम तारीख से पहले की अवधि के लिए पद पर कार्य करने की न्यूनतम अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर या उससे अधिक अर्जित की है या अर्जित करेंगे, के मामलों में स्कीम में यथा उपबंधित मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा:

परंतु यह और कि, जो वैज्ञानिक स्तर-1 छानबीन या स्तर -2 छानबीन में से किसी में भी अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन एक वर्ष के पश्चात् ही किया जाएगा, जब वे कम से कम एक और वार्षिक कार्यनिष्पादन अंकन रिपोर्ट प्राप्त कर लेंगे। इस तरह के पुनर्मूल्यांकन में फिर से स्तर -1 और स्तर -2 छानबीन शामिल होगी और यह उस चरण से शुरू नहीं होगी, जहां वैज्ञानिक अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे थे;

- (viii) अगले श्रेणी में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए स्कीम के अधीन मूल्यांकन प्रक्रिया केवल तीन बार आयोजित की जाएगी, और उसके पश्चात्, वैज्ञानिक को केंद्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए यथा अनुमोदित उपांतरित सुनिश्चित करियर प्रगति स्कीम के अधीन समाविष्ट किया जाएगा;
- (ix) वैज्ञानिक जिसे उपांतरित सुनिश्चित करियर प्रगति स्कीम के अधीन कोई भी श्रेणी प्रदान की गई है, के नाम पर स्कीम में दी गई अगली श्रेणी के लिए विचार किया जा सकता है।
- (x) प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य करने वाले वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों को इस स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें केवल उपांतरित सुनिश्चित करियर प्रगति के अधीन उन्नयन का लाभ दिया जाएगा;
- (xi) स्कीम के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए सिफारिश किए गए वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन सक्षम प्राधिकारी ने प्रोन्नति या उन्नयन को मंजूरी दी थी। छुट्टी या संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों को केवल उसी तारीख से प्रोन्नति दी जा सकती है जिस तारीख से वे फिर से कार्यभार ग्रहण करते हैं या मूल कांडर में लौटते हैं;
- (xii) कोई भूतकक्षी प्रोन्नति या उन्नयन नहीं होगा;
- (xiii) वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर प्रोन्नति के लिए अनुसंधान और विकास में क्षेत्र अनुभव और/ या वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कम से कम दो वर्ष का अनुभव और वैज्ञानिक 'जी' के पद पर प्रोन्नति के लिए कम से कम पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा;
- (xiv) छुट्टी की अवधि, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा आदि पर व्यतीत की गई अवधि को पद पर कार्य की न्यूनतम अवधि की गणना के लिए स्कीम में यथा उपबंधित माना जाएगा।

(2) सीधी भर्ती: सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति नियम 5 के उप-नियम 3 के अधीन की जाएगी और प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और आयु-सीमा अनुसूची-2 के अनुसार होगी।

(3) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन के आधार पर भर्ती नियम 5 के उप-नियम 3 के अधीन की जाएगी और प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव और आयु-सीमा अनुसूची-3 के अनुसार होगी।

7. परिवीक्षा:- (1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक वैज्ञानिक एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, परन्तु यह कि काडर नियंत्रण प्राधिकारी इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, केंद्रीय सरकार द्वारा पदधारियों से अपेक्षा कर सकेगी कि वे परिवीक्षा के संतोषप्रद समापन हेतु स्कीम के अधीन यथा अपेक्षित प्रशिक्षण और अनुदेशों को पूरा करें।

(3) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामले इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों द्वारा प्रशासित होंगे।

8. पुष्टिकरण:- सीधी भर्ती के माध्यम से श्रेणी में पुष्टिकरण, विभागीय समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) की सिफारिशों पर काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

वैज्ञानिक 'जी' के लिए:

- | | | | |
|-----|---|---|----------|
| (1) | सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | - | अध्यक्ष; |
| (2) | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग में अपर सचिव या उनसे ऊपर के स्तर के ज्येष्ठ अधिकारी | - | सदस्य; |
| (3) | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित विभाग से बाहर से कम से कम तीन विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक 'एच' के स्तर से नीचे न हों | - | सदस्य। |

वैज्ञानिक 'सी', 'डी', 'ई' और 'एफ' के लिए

- | | | | |
|-----|---|---|----------|
| (1) | सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | - | अध्यक्ष; |
| (2) | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन किसी संगठन के निदेशक या प्रमुख | - | सदस्य; |
| (3) | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित विभाग से बाहर से कम से कम तीन विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक 'जी' के स्तर से नीचे न हों | - | सदस्य। |

9. निरर्हता.- वह व्यक्ति --

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. इन नियमों में उल्लिखित न किया गया कोई भी मामला स्कीम के उपबंधों द्वारा प्रशासित होगा।

अनुसूची I**[नियम 6(I) देखें]****(प्रोन्नति या उन्नयन के लिए छानबीन और चयन प्रक्रिया)****क. स्तर 1 छानबीन (आंतरिक छानबीन समिति):**

इस स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के मानदंडों के संबंध में वार्षिक कार्य रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नामित निम्नलिखित संरचना के अनुसार एक आंतरिक छानबीन समिति गठित की जाएगी, अर्थात् :-

अध्यक्ष, जो वैज्ञानिक 'जी' से कम स्तर के नहीं होंगे	अध्यक्ष
न्यूनतम तीन विशेषज्ञ, जो वैज्ञानिक 'जी' से कम स्तर के नहीं होंगे, परंतु कम से कम एक सदस्य अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से होगा।	सदस्य

ख. स्तर 2 छानबीन (मूल्यांकन बोर्ड या विभागीय सहकर्मि समीक्षा समिति)

(1) मंत्रालय या विभाग में गठित मूल्यांकन बोर्ड वैज्ञानिकों के मूल्यांकन के लिए स्तर -2 छानबीन करेंगे और स्कीम के अनुसार वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'ई' तक प्रोन्नति या उन्नयन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। वैज्ञानिक 'सी' से 'ई' श्रेणी में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए मूल्यांकन बोर्ड का गठन निम्नलिखित संरचना के साथ किया जाएगा:-

सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो निदेशक या संस्थान के प्रमुख या वैज्ञानिक 'जी' से कम स्तर के पद पर न हो।	अध्यक्ष
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन दो संगठनों के प्रमुख	सदस्य
विभाग के बाहर से न्यूनतम तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'जी' से कम स्तर के नहीं होंगे, जिनमें अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से कम से कम एक वैज्ञानिक शामिल हो।	सदस्य

(2) मंत्रालय या विभाग में गठित विभागीय सहकर्मि समीक्षा समिति वैज्ञानिकों के मूल्यांकन के लिए स्तर 2 की छानबीन करेगी और स्कीम के अनुसार वैज्ञानिक 'ई' से 'एफ' की प्रोन्नति या उन्नयन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिसका गठन निम्नलिखित होगा, अर्थात्:-

सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	अध्यक्ष
अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों के दो सचिव या उनके प्रतिनिधि जो उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर हों जिस पर स्कीम के अधीन प्रोन्नति की जानी है	सदस्य
वैज्ञानिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो प्रख्यात वैज्ञानिक।	सदस्य
समय-समय पर यथा उपांतरित अनुदेशों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नामित व्यक्ति	सदस्य

(3) मंत्रालय या विभाग में गठित विभागीय सहकर्मि समीक्षा समिति वैज्ञानिकों के मूल्यांकन के लिए स्तर 2 की छानबीन करेगी और स्कीम के अनुसार वैज्ञानिक 'एफ' से 'जी' के पद पर प्रोन्नति या उन्नयन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिसका गठन निम्नानुसार होगा:-

सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	अध्यक्ष
अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों के दो सचिव या उनके प्रतिनिधि जो उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर हों जिस पर स्कीम के अधीन प्रोन्नति की जानी है।	सदस्य
वैज्ञानिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले कम से कम तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'जी' के स्तर से नीचे न हों।	सदस्य
समय-समय पर यथा उपांतरित अनुदेशों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नामित व्यक्ति।	सदस्य

अनुसूची - II**[नियम 6(2) देखें]****(पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरना)****1. शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं:****(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विनिर्दिष्ट विषयों में विज्ञान में मास्टर डिग्री, अर्थात् - गणित, भौतिक विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, सांख्यिकी, परिचालन अनुसंधान, पर्यावरण विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन, रिमोट सेंसिंग, कृषि, भू-सूचना विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूभौतिकी, भूगर्भ शास्त्र, भूविज्ञान, भूरसायन विज्ञान, मत्स्य पालन, समुद्री विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री भूविज्ञान, समुद्री भूभौतिकी, जैव रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग, जलीय कृषि, सूक्ष्म जीव विज्ञान, भूकंप विज्ञान, जल रसायन विज्ञान

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से किसी विनिर्दिष्ट विषयों में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री : पर्यावरण इंजीनियरिंग, महासागर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग, समुद्री इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, भूकंप इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन और प्रौद्योगिकी, मेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से किसी विनिर्दिष्ट विषयों में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री: वायुमंडलीय विज्ञान, महासागर विज्ञान, महासागर प्रौद्योगिकी, जल संसाधन, जल विज्ञान, हाइड्रोलिक और तटीय इंजीनियरिंग, वायुमंडलीय भौतिकी, भू-तकनीकी और भू-पर्यावरण इंजीनियरिंग, वायुमंडलीय-महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन, पारिस्थितिकी पर्यावरण विज्ञान, महासागर इंजीनियरिंग और प्रबंधन, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान और भूभौतिकी, खनन इंजीनियरिंग, समुद्री इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भू-इंजीनियरिंग, निर्माण प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक आपदा प्रौद्योगिकी और परिस्कीम प्रबंधन, संरचनात्मक इंजीनियरिंग और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, रडार और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग।

(ख) वांछनीय अर्हता:

जहां बैचलर डिग्री अनिवार्य अर्हता है वहां इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (एम.ई. या एम.टेक) वांछनीय है, तथा जहां मास्टर्स अनिवार्य अर्हता है वहां संबंधित विषयों में डॉक्टरेट वांछनीय है, जिसे ऊपर उल्लिखित विद्याशाखाओं में भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ग) अनुभव:

वैज्ञानिक 'सी'	औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों या विज्ञान या प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास या वैज्ञानिक क्रियाकलापों तथा सेवाओं में तीन (3) वर्षों का अनुभव।
----------------	--

वैज्ञानिक 'डी'	औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों या विज्ञान या प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास या वैज्ञानिक क्रियाकलापों तथा सेवाओं में सात (7) वर्षों का अनुभव।
वैज्ञानिक 'ई'	औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों या विज्ञान या प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास या वैज्ञानिक क्रियाकलापों तथा सेवाओं में ग्यारह (11) वर्षों का अनुभव।
वैज्ञानिक 'एफ'	औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों या विज्ञान या प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास या वैज्ञानिक क्रियाकलापों तथा सेवाओं में सोलह (16) वर्षों का अनुभव।
वैज्ञानिक 'जी'	i. औद्योगिक और अकादमिक संस्थानों या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान या विकास अथवा वैज्ञानिक क्रियाकलापों तथा सेवाओं में इक्कीस वर्षों (21) का अनुभव; ii. वैज्ञानिक कार्यक्रम विकसित, प्रबंधित एवं निर्देशित करने का अनुभव; और iii. उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्य जो प्रकाशित हुआ हो।

टिप्पण: इस अनुसूची की मद (i) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुसार शैक्षिक अर्हता और अनुभव के क्षेत्र, काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा भर्ती के समय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

2. आयु सीमा:- प्रत्येक श्रेणी के पदों में सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा नीचे दी गई सारणी में यथा उपबंधित होगी, अर्थात:-

सारणी

क्रम सं .	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	आयु सीमा (अधिकतम)
1	वैज्ञानिक 'सी'	स्तर – 11	40 वर्ष
2	वैज्ञानिक 'डी'	स्तर – 12	50 वर्ष
3	वैज्ञानिक 'ई'	स्तर – 13	50 वर्ष
4	वैज्ञानिक 'एफ'	स्तर – 13क	50 वर्ष
5	वैज्ञानिक 'जी'	स्तर – 14	50 वर्ष

(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और अंतिम तारीख वह नहीं होगी, जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

3. छानबीन और चयन प्रक्रिया: छानबीन और चयन प्रक्रिया काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी, तथा जांच सह-शॉर्ट लिस्टिंग समिति और साक्षात्कार या चयन बोर्ड की संरचना निम्नानुसार होगी:

(क) वैज्ञानिक 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ' और 'जी' की सीधी भर्ती के लिए छानबीन सह-शॉर्ट लिस्टिंग समिति:

अध्यक्ष, जो वैज्ञानिक 'जी' से कम स्तर के नहीं होंगे	अध्यक्ष
कम से कम तीन विशेषज्ञ, जो वैज्ञानिक 'जी' से कम स्तर के नहीं होंगे, परंतु कम से कम एक सदस्य अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से होगा।	सदस्य

(ख) वैज्ञानिक 'सी', 'डी' और 'ई' की सीधी भर्ती के लिए चयन समिति:

सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो निदेशक या संस्थान के प्रमुख या वैज्ञानिक 'जी' से कम स्तर के नहीं होंगे।	अध्यक्ष
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन दो संगठनों के प्रमुख	सदस्य
विभाग के बाहर से कम से कम तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'जी' से कम स्तर के नहीं होंगे, जिनमें अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से कम से कम एक वैज्ञानिक शामिल हो।	सदस्य

(ग) वैज्ञानिक 'एफ' की सीधी भर्ती हेतु चयन समिति:

सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	अध्यक्ष
अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों के दो सचिव या उनके प्रतिनिधि जो उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर हों जिस पर स्कीम के अधीन प्रोन्नति की जानी है	सदस्य
वैज्ञानिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले दो प्रख्यात वैज्ञानिक।	सदस्य

(घ) वैज्ञानिक 'जी' की सीधी भर्ती हेतु चयन समिति:

सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	अध्यक्ष
अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों के दो सचिव या उनके प्रतिनिधि जो उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर हों जिस पर स्कीम के अधीन प्रोन्नति की जानी है	सदस्य
वैज्ञानिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले कम से कम तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'जी' से कम स्तर के नहीं होंगे	सदस्य

अनुसूची - III

[नियम 6(3) देखें]

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) अथवा आमेलन के माध्यम से पदों को भरा जाना

- वैज्ञानिक 'सी' से 'जी' के लिए प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं अनुसूची-2 के पैरा-1 में सीधी भर्ती के लिए यथा विनिर्दिष्ट होंगी।
- वैज्ञानिक 'सी' से लेकर वैज्ञानिक 'जी' तक के लिए प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) या आमेलन जिस श्रेणी से किया जाएगा, वह निम्नानुसार होगा:-

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक या इंजीनियर:

वैज्ञानिक 'सी'	(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में उस पद या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 में तीन वर्ष की सेवा की हो;
वैज्ञानिक 'डी'	(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में उस पद या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 में पांच वर्ष की सेवा की हो;
वैज्ञानिक 'ई'	(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

	(ii) जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में उस पद या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 में पांच वर्ष की सेवा;
वैज्ञानिक 'एफ'	(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में उस पद या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में पांच वर्ष की सेवा की हो;
वैज्ञानिक 'जी'	(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में उस पद या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में पांच वर्ष की सेवा की हो;

टिप्पण 1: वैज्ञानिक 'सी' और वैज्ञानिक 'डी' के पदों पर प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। वैज्ञानिक 'सी' और उससे ऊपर के पदों के लिए साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रान्ति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'एफ' के 56 वर्ष और वैज्ञानिक 'जी' के लिए 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

3. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन के आधार पर भर्ती के लिए छानबीन और चयन प्रक्रिया अनुसूची-2 के पैरा-3 में सीधी भर्ती के लिए यथा विनिर्दिष्ट होगी।

[फा.सं. A-12018/1/2024-स्थापना]

डी. सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2025

G.S.R. 167(E). —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Earth Sciences, [Scientists Group 'A' posts] Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientists (Scientists 'C' to 'G') in the Ministry of Earth Sciences and attached and subordinate offices.

1. Short-title and commencement.- These rules may be called the Ministry of Earth Sciences, Scientific/Technical, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Cadre Controlling Authority" means the Secretary, Ministry of Earth Sciences, Government of India;
- (b) "Schedule" means the Schedules appended to these rules;

- (c) 'Scheme' means the "Revised Flexible Complementing Scheme (RFCS)" issued by the Department of Personnel and Training *vide* its O.M. No. AB/14017/41/2013-PP(RR), dated the 13th March, 2024, as amended from time to time;
- (d) "scientific post" means a post as defined in the Scheme;
- (e) "Scientist" means a person as specified in the said Scheme.

3. Designation, sanctioned strength, Classification and Level in the Pay Matrix.-

The designation, number of posts, their classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in the following Table, namely:-

Table-1

Sl. No.	Name of Post	Sanctioned Strength	Classification	Level in Pay Matrix
1.	Scientist 'G'	09	General Central Service Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Level 14
2.	Scientist 'F'	09		Level 13A
3.	Scientist 'E'	31		Level 13
4.	Scientist 'D'	83		Level 12
5.	Scientist 'C'	99		Level 11
	Total	231		

4 The list of attached and subordinate offices and break-up of the sanctioned strength. -

(1) List of attached and subordinate offices:-

- Ministry of Earth Sciences (Headquarters) [MoES(HQ)]
- India Meteorological Department (IMD)
- National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF)
- Centre for Marine Living Resources and Ecology (CMLRE)
- National Centre for Coastal Research (NCCR)
- National Centre for Seismology (NCS)

(2) The break-up of sanctioned strength shall be as specified in the following Table, namely.-

Table-2

Sl. No.	Name of post	MoES(HQ)	IMD	NCMRWF	CMLRE	NCCR	NCS	Total
1.	Scientist 'G'	03	05	01	00	00	00	09
2.	Scientist 'F'	09	00	00	00	00	00	09
3.	Scientist 'E'	09	21	00	01	00	00	31
4.	Scientist 'D'	16	44	11	05	07	00	83
5.	Scientist 'C'	21	37	20	11	10	00	99
	Total	58	107	32	17	17	00	231

5. Method of Recruitment.-

(1) The vacancies in each grade shall first be filled from the Scientists in the feeder grade who are recommended for promotion to the next higher grade under the Scheme. If the number of Scientists recommended for consideration of promotion to the next grade under the Scheme are more than the number of vacancies available in the promotion grade, then to that extent the number of posts be automatically upgraded to the promotion grade subject to the condition that the combined sanctioned strength of all the grades shall remain the same.

(2) The vacancies arising due to attrition shall normally revert to the entry level grade of the respective Scientific or Technical category.

(3) Based on functional needs and with the approval of the Competent Authority, upto 10% of these vacancies may be filled by the method of recruitment provided in these rules, for the posts above entry level, based on the level of the vacancy and commensurate with the higher qualifications and skills of individual candidates within the overall sanctioned strength.

6. (1) Promotion or Upgradation:

- (i) The promotion or upgradation of Scientists upto the grade of Scientist 'G' shall be as per the provisions specified in the Scheme.
- (ii) Scientist 'B' in Level-10 of the pay matrix shall be assessed for promotion or upgradation to the post of Scientist 'C'.
- (iii) The posts are exempted from the purview of consultation with the Union Public Service Commission as for making recruitment through direct recruitment or promotion or deputation (including short term contract) or absorption;
- (iv) The promotion or upgradation of Scientist 'C' upto the grade of Scientist 'G' shall be as per the minimum residency period specified in the Table below and in compliance with other provisions specified in the Scheme:

Table-3

Sl. No.	Level in Pay Matrix	Designation	Minimum residency period linked to performance
1.	Pay Level-10	Scientist 'B'	-----
2.	Pay Level-11	Scientist 'C'	3 years as Scientist- 'B'
3.	Pay Level-12	Scientist 'D'	4 years as Scientist- 'C'
4.	Pay Level-13	Scientist 'E'	4 years as Scientist- 'D'
5.	Pay Level-13A	Scientist 'F'	5 years as Scientist- 'E'
6.	Pay Level-14	Scientist 'G'	5 years as Scientist- 'F'

- (v) The Scientists shall fill up the Annual Work Report and Annual Performance Appraisal Report as specified in Annexure-III and IV, respectively of the Scheme, mandatorily on an annual basis;
- (vi) There shall be two levels of assessment as provided in the Scheme namely, Level-1 Screening (Internal Screening Committee) and Level-2 Screening (Assessment Board or Departmental Peer Review Committee) as provided in Schedule-I;
- (vii) The assessment for promotion would be done twice in a year:

Provided that cases of those Scientists who have completed or will complete the minimum residency period as on the cut off dates of assessment that is 1st January or 1st July, as the case may be, and have earned or shall earn number of Annual Confidential Report or Annual Performance Appraisal Report equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period preceding the cut-off dates of assessment, shall be considered for assessment as provided in the Scheme:

Provided further that the Scientists who do not qualify either in level-1 Screening or level-2 Screening shall be re-assessed only after one year when they earn at least one more Annual Performance Appraisal Report. Such re-assessment would again entail level-1 and level-2 Screening and not commence from the stage where the Scientist failed to qualify;

- (viii) The assessment process under the Scheme for promotion or upgradation to the next grade would be conducted only thrice and thereafter, the Scientist shall be covered under the Modified Assured Career Progression Scheme as approved for the Central Government civilian employees.
- (ix) The Scientist who has been granted any grade under the Modified Assured Career Progression may be considered for next grade as provided for in the Scheme;
- (x) The Scientists or Technical experts doing management or administrative work shall not be considered for promotion or upgradation under the Scheme and they shall only be given the benefit of upgradation under the Modified Assured Career Progression;
- (xi) The date of promotion or upgradation of Scientists recommended for promotion or upgradation to the next higher grade under the Scheme shall be the date on which the Competent Authority approved the

promotion or upgradation. Officers on leave or deputation outside the organisation may be given promotion only with effect from the date they re-join or return to the parent cadre;

(xii) There shall be no retrospective promotion or upgradation;

(xiii) The field experience, in research and development and or experience in implementation of Scientific projects, of at least two years for promotion to Scientist 'F' and five years for promotion to Scientist 'G' shall be essential;

(xiv) The treatment of period of leave, period spent on deputation or foreign service etc., towards counting of minimum residency period shall be such as provided in the Scheme.

(2) **Direct Recruitment:** The appointment on direct recruitment basis shall be made subject to sub-rule (3) of rule 5 and the educational qualification, experience and age-limit for each post shall be in accordance with Schedule-II.

(3) **Deputation (including short-term contract) or absorption:** The recruitment shall be made on deputation (including short-term contract) or absorption basis subject to sub-rule(3)of rule 5, the eligibility criteria, educational qualification, experience and age limit for each post shall be in accordance with Schedule-III.

7. **Probation.**-(1) Every Scientist appointed by direct recruitment shall be on probation for one year:

Provided that the Cadre Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard.

(2) During the period of probation, or any extension thereof, the incumbents may be required by the Central Government to undergo training and instructions as required under the Scheme for satisfactory completion of the probation.

(3) As regards other matters relating to probation, the same shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

8. **Confirmation.**-The confirmation in the grade through direct recruitment shall be done by the Cadre Controlling Authority on the recommendations of the Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of:-

For Scientist 'G':

- | | | |
|-----|---|-------------|
| (1) | Secretary, Ministry of Earth Sciences | - Chairman; |
| (2) | Additional Secretary or above level, Ministry of Earth Sciences or Ministry of Science and Technology or Department of Space or Department of Atomic Energy | - Member; |
| (3) | At least three experts not below the level of Scientist 'H' from outside the Department nominated by the Secretary, Ministry of Earth Sciences | - Members. |

For Scientists 'C', 'D', 'E' and 'F'

- | | | |
|-----|--|-------------|
| (1) | Secretary, Ministry of Earth Sciences | - Chairman; |
| (2) | Director or Head of one of the organisation under the Ministry of Earth Sciences | - Member; |
| (3) | At least three experts not below the level of Scientist 'G' from outside the Department nominated by the Secretary, Ministry of Earth Sciences | - Members. |

9. **Disqualification.**- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule, shall be eligible for appointment to the said posts.

10. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. Any matter not mentioned in these rules shall be governed by the provisions of the Scheme.

SCHEDULE - I**[See Rule 6(I)]****(Screening and Selection process for promotion or upgradation)****A. Level 1 Screening (Internal Screening Committee):**

An internal screening committee shall be constituted for evaluation of annual work reports vis-a-vis the criteria for promotion or upgradation under the Scheme as per the following composition nominated by the Secretary, Ministry of Earth Sciences namely :-

Chairman not below the level of Scientist 'G'	Chairman
At least three experts not below the level of Scientist 'G', provided that at least one Member shall be from Department of Space or Department of Atomic Energy or Defence Research and Development Organisation.	Members

B. Level 2 Screening (Assessment Board or Departmental Peer Review Committee)

(1) The Assessment Boards constituted in the Ministry or Department shall undertake Level 2 screening for assessment of Scientists and furnish their recommendation for promotion or upgradation from Scientist 'C' upto Scientist 'E' as per the Scheme. The Assessment Board shall be constituted for promotion or upgradation to the grade of Scientists 'C' to 'E' with the following composition:-

Secretary, Ministry of Earth Sciences or his Nominee not below the level of Director or Head of the Institute or Scientist 'G'	Chairman
Two Heads of Organisations under Ministry of Earth Sciences	Members
At least three eminent Scientists not below the level of Scientist 'G' from outside the Department including at least one from Department of Space or Atomic Energy or Defence Research and Development Organisation.	Members

(2) The Departmental Peer Review Committee constituted in the Ministry or Department shall undertake Level 2 screening for assessment of scientists and furnish their recommendation for promotion or upgradation of Scientists 'E' to 'F' as per the Scheme with the following composition namely:-

Secretary, Ministry of Earth Sciences	Chairman
Two Secretaries of other Scientific Ministries or Departments or their representatives who are at least one level above the post to which promotion under the Scheme is to be made	Members
Two eminent scientists specialising in the field of scientific activity.	Members
The nominee of the Department of Personnel & Training as per extant instructions as modified from time to time	Member

(3) The Departmental Peer Review Committee constituted in the Ministry or Department shall undertake Level 2 screening for assessment of scientists and furnish their recommendation for promotion or upgradation of Scientists 'F' to 'G' as per the Scheme with the following composition:-

Secretary, Ministry of Earth Sciences	Chairman
Two Secretaries of other Scientific Ministries or Departments or their representatives who are at least one level above the post to which promotion under the Scheme is to be made	Members
At least three eminent Scientists not below the level of Scientist 'G' specialising in the field of Scientific activity	Members
The nominee of the Department of Personnel & Training as per extant instructions as modified from time to time.	Member

SCHEDULE - II**[See Rule 6(2)]****(Filling up the posts through direct recruitment)****1. Educational and other qualifications:****(a) Essential educational qualification:**

Master's degree in Science from a recognised University in any specified subjects, namely in - Mathematics, Physics, Atmospheric Science or Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Biology Science, Meteorology, Oceanography, Earth Sciences, Statistics, Operations Research, Environmental Science, Electronics and Instrumentation, Remote Sensing, Agriculture, Geo-informatics, Soil Sciences, Geophysics, Geology, Geosciences, Geochemistry, Fisheries, Marine Sciences, Marine Biology, Marine Geology, Marine Geophysics, Biochemistry, Computer Sciences, Computer Applications, Aquaculture, Micro-biology, Seismology, Hydrochemistry

OR

Bachelor's Degree in Engineering and Technology from a recognised University in specified subjects : Environmental Engineering, Ocean Engineering, Electronic and Communication Engineering, Marine Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Information Technology, Telecom Technology, Earthquake Engineering, Chemical Engineering, Instrumentation and Technology, Mechatronics, Electrical Engineering, Computer Science, Biotechnology.

OR

Master's Degree in Engineering and Technology from a recognized University in specified subjects : Atmospheric Science, Ocean Science, Ocean Technology, Water Resources, Hydrology, Hydraulic and Coastal Engineering, Atmospheric Physics, Geotechnical and Geo-Environmental Engineering, Atmospheric-Ocean Science and Technology, Energy and Environmental Management, Ecology Environmental Science, Ocean Engineering and Management, Aerospace Engineering, Agricultural Engineering, Biotechnology, Geology and Geophysics, Mining Engineering, Marine Engineering, Environmental Science and Technology, Geo-Engineering, Construction Technology and Natural Disaster Technology and Project Management, Structural Engineering and Natural Disaster Management, Disaster Management, Radar and Microwave Engineering.

(b) Desirable Qualification:

Master's Degree in Engineering and Technology (M.E. or M.Tech), in cases where Bachelor's degree is essential qualification or Doctorate in related subjects where Master's is essential qualification, to be specified at the time of recruitment from the above mentioned disciplines.

(c) Experience:

Scientist 'C'	Three years experience in Research and Development in Industrial or Academic Institutions or Science and Technology Organisation or scientific activities and services.
Scientist 'D'	Seven years experience in Research and Development in Industrial or Academic Institutions or Science and Technology Organisation or scientific activities and services.
Scientist 'E'	Eleven years experience in Research and Development in Industrial or Academic Institutions or Science and Technology Organisation or scientific activities and services.
Scientist 'F'	Sixteen years experience in Research and Development in Industrial or Academic Institutions or Science and Technology Organisation or scientific activities and services.
Scientist 'G'	(i) Twenty one years experience in Research and Development in Industrial or Academic Institutions or Science and Technology Organisation or scientific activities and services; (ii) experience of evolving, managing and directing scientific programme; and (iii) published research work of high standard.

Note: The educational qualifications and areas of experience according to the requirement mentioned in item (1) of this schedule shall be specified at the time of recruitment by the Cadre Controlling Authority.

2. **Age-limit:-** The upper age- limit for direct recruits in each category of posts shall be as provided in the table below, namely:-

Table

Sl. No.	Name of post	Level in the Pay Matrix	Age limit (Not exceeding)
1	Scientist 'C'	Level – 11	40 years
2	Scientist 'D'	Level – 12	50 years
3	Scientist 'E'	Level – 13	50 years
4	Scientist 'F'	Level – 13A	50 years
5	Scientist 'G'	Level – 14	50 years

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

3. **Screening and Selection process:-** The Screening and selection process shall be as specified by the Cadre Controlling Authority and the composition of the Screening cum-short listing Committee and Interview or Selection Board as the like shall be as under:

- (a) Screening cum-short listing Committee for direct recruitment of Scientists 'C', 'D', 'E', 'F' and 'G':

Chairman, not below the level of Scientist 'G'	Chairman
At least three experts not below the level of Scientist 'G', provided that at least one Member shall be from Department of Space or Department of Atomic Energy or Defence Research and Development Organisation.	Members

- (b) Selection Committee for direct recruitment of Scientists 'C', 'D' and 'E':

Secretary, Ministry of Earth Sciences or his nominee not below the level of Director or Head of the Institute or Scientist 'G'	Chairman
Two Heads of organisations under Ministry of Earth Sciences	Members
At least three eminent Scientists not below the level of Scientist 'G' from outside the Department including at least one from Department of Space or Atomic Energy or Defence Research and Development Organisation.	Members

- (c) Selection Committee for direct recruitment of Scientist 'F':

Secretary, Ministry of Earth Sciences	Chairman
Two Secretaries of other Scientific Ministries or Departments or their representatives who are at least one level above the post to which promotion is to be made	Members
Two eminent Scientists specialising in the field of scientific activity.	Members

- (d) Selection Committee for direct recruitment of Scientist 'G':

Secretary, Ministry of Earth Sciences	Chairman
Two Secretaries of other Scientific Ministries or Departments or their representatives who are at least one level above the post to which promotion is to be made	Members
At least three eminent Scientists not below the level of Scientist 'G' specialising in the field of scientific activity	Members

SCHEDULE - III**[See Rule 6(3)]****Filling up the post through deputation (including short-term contract) or absorption**

- 1. Educational and other qualifications required for deputation (including short-term contract) or absorption for Scientist 'C' to 'G' shall be as specified for direct recruitment in paragraph 1 of Schedule -II.**
- 2. Grades from which deputation (including short-term contract) or absorption to be made for Scientists 'C' to 'G' shall be as follows:-**

Scientists or Engineers working in the Central Government or State Government or Union territory or universities or recognised research institutions or statutory or autonomous organisations in India:

Scientist 'C'	(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years service in the pay matrix level-10, in the Government Sector, rendered after appointment thereto on regular basis or equivalent;
Scientist 'D'	(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with four years service in the pay matrix Level-11, in the Government Sector, rendered after appointment thereto on regular basis or equivalent;
Scientist 'E'	(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with four years service in the pay matrix Level-12, in the Government Sector, rendered after appointment thereto on regular basis or equivalent;
Scientist 'F'	(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years service in the pay matrix Level-13, in the Government Sector, rendered after appointment thereto on regular basis or equivalent;
Scientist 'G'	(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years service in the pay matrix Level-13A, in the Government Sector, rendered after appointment thereto on regular basis or equivalent;

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government for the posts of Scientist 'C' and Scientist 'D' shall ordinarily not exceed four years. For the posts in Scientist 'E' and above, it shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for promotion.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years for Scientists 'C' to 'F' and fifty-eight years for Scientists 'G' as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: Officers of the Central Government or State Government or Union territories are eligible to be considered for appointment on absorption basis.

- 3. Screening and Selection process for recruitment on deputation (including short-term contract) or absorption basis shall be as specified for direct recruitment in paragraph 3 of Schedule -II.**

[F.No. A-12018/1/2024-Estt.]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.